



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 527]
No. 527]

नई दिल्ली, बुध्दतिवार, नवम्बर 24, 1983/अग्रहायण 3, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 1983/AGRAHAYNA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

सदस्य

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1983

का०आ० 854(अ):—उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्रीकरण और अनुशासन नियम, 1952 के नियम 10 के उपनियम (2) के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 163(अ)/आर०एल०आई०यू०/10 (2)/76, तारीख 3 मार्च, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अंत में निम्नलिखित जोड़ा जावेगा, अर्थात्:—

“विशेष अनुमोदन समिति (एन०आर०आई०)

अध्यक्ष

(1) सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय

- (2) सचिव, वाणिज्य मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित
- (3) सचिव, कंपनी कार्य विभाग या उसका नामनिर्देशित
- (4) सचिव, योजना आयोग या उसका नामनिर्देशित
- (5) सचिव, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) या उसका नामनिर्देशित
- (6) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या उसका नामनिर्देशित
- (7) सचिव, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास महा-निदेशालय या उसका नामनिर्देशित
- (8) अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड या उसका नामनिर्देशित
- (9) विकास आयुक्त, लघु उद्योग या उसका नामनिर्देशित
- (10) आयात और निर्यात का मुख्य नियंत्रक या उसका नामनिर्देशित
- (11) सचिव, पर्यावरण विभाग या उसका नामनिर्देशित
- (12) सचिव, कृषि विभाग या उसका नामनिर्देशित
- (13) कार्यपालक निदेशक, भारतीय विनिधान केन्द्र या उसका नामनिर्देशित

(14) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय का सचिव या उसका नामनिर्देशित

15) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशित सदस्य-सचिव

औद्योगिक अनुमोदनों के लिये सचिवालय का भारमाधव संयुक्त सचिव

विशेष अनुमोदन समिति (एन०आर०आई०) के कृत्य

1. विशेष अनुमोदन समिति, (क) औद्योगिक अनुमोदनों;

(ख) विदेशी सहयोग के लिये प्रस्थापनाओं; और

(ग) पूंजी माल के आयात के संबंध में अतिवासी भारतीयों से प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगी।

2. विशेष अनुमोदन समिति, वास्तविक क्षमता चलाने के प्रक्रम तक उचित स्कीम के अधीन मंजूर किये गये औद्योगिक अनुमोदनों के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनर्विलोकन करेगी।

3. विशेष अनुमोदन समिति, स्कम के अधीन प्राप्त आवेदनों से या उसके अधीन व्यक्तिगत प्रस्थापनाओं के कार्यान्वयन से उद्भूत पालिसी संबंधी प्रश्नों पर विचार करेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकांशित पालिसी के अनुसार उनका समाधान करेगी।

4. विशेष अनुमोदन समिति, अपने विवेकानुसार किसी समुचित प्राधिकारी के विचार और विनिश्चय के लिये ऐसा कोई मामला निर्देशित कर सकेगी जो उसकी क्षमता के भीतर आने वाले मामलों की बाबत हो।

5. विशेष अनुमोदन समिति, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत किये जा सकने वाले औद्योगिक उपक्रमों की बाबत, औद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्रीकरण और अनुशासन नियम, 1950 के नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन नियुक्त अनुशासन समिति की शक्तियों का प्रयोग करेगी और उक्त अधिनियम की धारा 21 और धारा 22 के अधीन आवेदनों की सूचनाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगी।”।

[भा०स० 18/1/82-एल०पी०]

एस०एल० तपूर, सहायक सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 1983

S.O.854(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951),

read with sub-rule (2) of rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, the Ministry of Industry, Department of Industrial Development, hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the former Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 163(E)/RLIU/10(2)/76, dated the 3rd March, 1976 namely :—

In the said notification, the following shall be added at the end, namely :—

“Special Approval Committee (NRI)

CHAIRMAN

(1) Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry

MEMBERS

(2) Secretary, Ministry of Commerce, or his nominee.

(3) Secretary, Department of Company Affairs or his nominee.

(4) Secretary, Planning Commission or his nominee.

(5) Secretary, Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs) or his nominee.

(6) Secretary, Department of Science and Technology or his nominee.

(7) Secretary, Technical Development, Directorate General of Technical Development or his nominee.

(8) Chairman, Central Board of Excise and Customs or his nominee.

(9) Development Commissioner, Small Scale Industries or his nominee.

(10) Chief Controller of Imports and Exports or his nominee.

(11) Secretary, Department of Environment or his nominee.

(12) Secretary, Department of Agriculture or his nominee.

(13) Executive Director, Indian Investment Centre or his nominee.

(14) Secretary of the Administrative Ministry concerned or his nominee.

(15) Director General, Council of Scientific and Industrial Research or his nominee.